

# सोच समझ के चाल

सोच समझ कै चाल गलती मैं बणी सो बणी,

चोरी जारी और बदमाशी की कहीं नहीं टकसाल,  
बिना पढ़ाया आपै पढ़गा ऐसे कर्म चण्डाल,  
बदी की पट्टी थी जितणी,

कान पकड़ कै आगै कर ले एक दिन तुझको काल,  
मात पिता बंधू सुत धारा जब कोण अड़ा लेगा ढाल,  
अकेली जागी ज्यान अपणी,

धर्मराज तेरे कर्मा की एक दिन करै सम्भाल,  
चिमटे लाल करा कै खिंचवा देगा खाल,  
जिगर मैं चालै सैलां की ऐणी,

बालकपण मैं भूल गया दुनिया दारी के खयाल,  
काट्या जा तै काट मेहर सिंह मोह ममता का जाल,  
गीता तै गाली बहुत घणी ।

Source:

<https://www.bharattemples.com/soch-samj-ke-chaal-galti-main-vani-so-vani/>



# Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>